

Accountancy

Group Number : 4
Group Id : 485584885
Group Maximum Duration : 60
Group Minimum Duration : 60
Show Attended Group? : No
Edit Attended Group? : No
Break time : 0
Group Marks : 200
Is this Group for Examiner? : No
Examiner permission : Cant View
Show Progress Bar? : No

Accountancy

Section Id : 4855841025
Section Number : 1
Section type : Online
Mandatory or Optional : Mandatory
Number of Questions : 50
Number of Questions to be attempted : 40
Section Marks : 200
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response : Yes
Maximum Instruction Time : 0
Sub-Section Number : 1
Sub-Section Id : 4855842900
Question Shuffling Allowed : Yes
Is Section Default? : null

Question Number : 101 Question Id : 48558437816 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

In the absence of partnership agreement, mutual relations of partners are governed by the _____

1. Provisions of Indian partnership Act 1942
2. Provisions of Indian partnership Act 1956
3. Provisions of Indian partnership Act 1936
4. Provisions of Indian partnership Act 1932

Options :

485584151261. 1
485584151262. 2
485584151263. 3
485584151264. 4

Question Number : 101 Question Id : 48558437816 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, साझेदारों के मध्य पारस्परिक संवाद _____ द्वारा निर्वाह होते हैं।

1. भारतीय साझेदारी अधिनियम 1942 के प्रावधान
2. भारतीय साझेदारी अधिनियम 1956 के प्रावधान
3. भारतीय साझेदारी अधिनियम 1936 के प्रावधान
4. भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान

Options :

485584151261. 1
485584151262. 2
485584151263. 3
485584151264. 4

Question Number : 102 Question Id : 48558437817 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Arrange the following in the context of Accounting for partnership.

- A. Preparation for Trading and Profit and Loss Account.
- B. Calculation of divisible profit or Loss.
- C. Preparation of profit and loss Appropriation Account.
- D. Preparation of Balance Sheet.
- E. Preparation of partners' capital Account.

Choose the correct answer from the given below:

- 1. A, C, B, E, D
- 2. A, C, E, B, D
- 3. B, C, D, E, A
- 4. C, D, E, A, B

Options :

- 485584151265. 1
- 485584151266. 2
- 485584151267. 3
- 485584151268. 4

Question Number : 102 Question Id : 48558437817 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

निम्नलिखित को साझेदारी के खातों के सन्दर्भ में व्यवस्थित कीजिए -

- A. व्यापार तथा लाभ व हानि खाता तैयार करना
- B. विभाज्य लाभ अथवा हानि की गणना करना
- C. लाभ व हानि विनियोजन खाता तैयार करना
- D. तुलन पत्र तैयार करना
- E. साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करना

नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिये :

- 1. A, C, B, E, D
- 2. A, C, E, B, D
- 3. B, C, D, E, A
- 4. C, D, E, A, B

Options :

- 485584151265. 1
- 485584151266. 2
- 485584151267. 3
- 485584151268. 4

Question Number : 103 Question Id : 48558437818 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Which of the following is not a charge against profit?

1. Manager's Commission
2. Rent to partner
3. Interest on Loan
4. Interest on Partner's Capital

Options :

485584151269. 1
485584151270. 2
485584151271. 3
485584151272. 4

Question Number : 103 Question Id : 48558437818 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

निम्नलिखित में से कौन-सा लाभ के विरुद्ध एक प्रभार नहीं है?

1. प्रबंधक का कमीशन
2. साझेदार को किराया
3. ऋण पर ब्याज
4. साझेदार पूँजी पर ब्याज

Options :

485584151269. 1
485584151270. 2
485584151271. 3
485584151272. 4

Question Number : 104 Question Id : 48558437819 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Capital employed by a Partnership firm is ₹ 5,00,00. Its average profit is Rs. 60,000. The normal rate of return in similar type of business is 10%. The amount of super profits of the firm will be:-

1. ₹50,000
2. ₹10,000
3. ₹6,000
4. ₹16,000

Options :

485584151273. 1
485584151274. 2
485584151275. 3
485584151276. 4

Question Number : 104 Question Id : 48558437819 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

एक साझेदारी फर्म में निवेशित पूंजी ₹ 5,00,000 है। इसका औसत लाभ ₹ 60000 है। इस प्रकार के व्यवसाय में सामान्य प्रत्याय की दर 10% है। फर्म द्वारा अर्जित अचिन्नाभ की राशि होगी -

1. ₹50,000
2. ₹10,000
3. ₹6,000
4. ₹16,000

Options :

485584151273. 1
485584151274. 2
485584151275. 3
485584151276. 4

Question Number : 105 Question Id : 48558437820 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

At the time of admission of a new partner, general reserve appearing in the old Balance Sheet is transferred to:-

1. All partners' Capital accounts
2. New partner's Capital account
3. Old Partners' Capital accounts
4. Sacrificing Partners' Capital accounts

Options :

485584151277. 1
485584151278. 2
485584151279. 3
485584151280. 4

Question Number : 105 Question Id : 48558437820 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

नये साझेदार के प्रवेश के समय, पुराने तुलन-पत्र में विद्यमान सामान्य संचय हस्तांतरित होता है -

1. सभी साझेदारों के पूंजी खाते में
2. नये साझेदार के पूंजी खाते में
3. पुराने साझेदार के पूंजी खाते में
4. त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में

Options :

485584151277. 1
485584151278. 2
485584151279. 3
485584151280. 4

Question Number : 106 Question Id : 48558437821 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Alia and Deepika are partners in a firm. They admitted Priyanka into partnership giving her $\frac{1}{5}$ th share which she acquired from Alia and Deepika in the ratio of 1:2 . What will be the new profit sharing ratio?

1. 7:5:3
2. 9:7:4
3. 13:11:6
4. 2:2:1

Options :

485584151281. 1
485584151282. 2
485584151283. 3
485584151284. 4

Question Number : 106 Question Id : 48558437821 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

आलिया तथा दीपिका एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने प्रियंका को $\frac{1}{5}$ भाग हेतु साझेदारी में प्रवेश दिया जिसे वह आलिया तथा दीपिका से 1:2 के अनुपात में गृहीत करती है। नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा?

1. 7:5:3
2. 9:7:4
3. 13:11:6
4. 2:2:1

Options :

485584151281. 1

485584151282. 2
485584151283. 3
485584151284. 4

Question Number : 107 Question Id : 48558437822 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Radhika and Raman are the partners in a firm sharing Profits in the ratio of 7:3. They admitted Kamal as a new partner for $\frac{1}{10}$ th share. Kamal brings ₹ 19,75,000 as his capital and necessary share for premium for goodwill.

It was agreed to value the goodwill at 3 years purchase of super Profit. During the year, the firm earned a profit of ₹ 4,50,000 and capital employed ₹ 17,50,000. If normal rate of return is 15%, calculate the amount that Kamal should bring in for goodwill.

1. ₹ 56,250
2. ₹ 5,62,500
3. ₹ 1,87,500
4. ₹ 2,62,500

Options :

485584151285. 1
485584151286. 2
485584151287. 3
485584151288. 4

Question Number : 107 Question Id : 48558437822 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

राधिका तथा रमन एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ का विभाजन 7:3 के अनुपात में करते हैं। उन्होंने कमल को एक नये साझेदार के रूप में $\frac{1}{10}$ भाग हेतु शामिल किया। कमल ₹ 19,75,000 पूंजी के रूप तथा ख्याति प्रतिफल हेतु आवश्यक राशि लाता है।

ख्याति का मूल्य अधिलाभ पर 3 वर्षों के क्रय पर सहमति हुई। वर्ष अक्वि के दौरान, फर्म ने ₹ 4,50,000 का लाभ अर्जित किया तथा निवेशित पूंजी ₹ 17,50,000 है। यदि सामान्य प्रत्याश की दर 15% है। ख्याति हेतु कमल द्वारा लाई जाने वाली राशि की गणना कीजिए ?

1. ₹ 56,250
2. ₹ 5,62,500
3. ₹ 1,87,500
4. ₹ 2,62,500

Options :

485584151285. 1
485584151286. 2
485584151287. 3
485584151288. 4

Question Number : 108 Question Id : 48558437823 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

At the time of retirement of a Partner, gain on revaluation will be credited to:

1. Capital A/c of retiring partner
2. Capital A/c of all Partners in their old Profit Sharing ratio
3. Capital accounts of remaining partners in their old Profit sharing ratio
4. Capital A/c of the remaining Partners in their new Profit Sharing ratio

Options :

485584151289. 1
485584151290. 2
485584151291. 3
485584151292. 4

Question Number : 108 Question Id : 48558437823 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

एक साझेदार की सेवानिवृत्ति के समय, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ धनी होगा -

1. सेवानिवृत्ति साझेदार की पूंजी खाते में
2. सभी साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में
3. शेष साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में
4. शेष साझेदारों के पूंजी खाते में उनके नये लाभ विभाजन अनुपात में

Options :

485584151289. 1
485584151290. 2
485584151291. 3
485584151292. 4

Question Number : 109 Question Id : 48558437824 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

On a Dissolution of a firm, repayment of Partner's loan to the firm will be shown in:

1. Credit of Realisation Account
2. Partner's Capital Account
3. Partner's Current Account
4. Credit of Bank A/c

Options :

485584151293. 1
485584151294. 2

485584151295. 3
485584151296. 4

Question Number : 109 Question Id : 48558437824 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

एक फर्म के विघटन पर, फर्म द्वारा साझेदार के ऋण का भुगतान कहाँ दिखाया जायेगा -

1. वसूली खाता के धनी पक्ष
2. साझेदारों के पूंजी खाते है
3. साझेदारों के चालू खाता में
4. बैंक खाते में, धनी पक्ष

Options :

485584151293. 1
485584151294. 2
485584151295. 3
485584151296. 4

Question Number : 110 Question Id : 48558437825 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

On dissolution of partnership firm, unrecorded assets when taken over by a partner are shown in:

1. Debit side of Realisation A/c
2. Credit side of Realisation A/c
3. Credit side of Bank A/c
4. Debit side of Bank A/c

Options :

485584151297. 1
485584151298. 2
485584151299. 3
485584151300. 4

Question Number : 110 Question Id : 48558437825 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

जब गैर-अभिलेखित परिसंपत्तियाँ एक साझेदार द्वारा ली जाती हैं तो _____ में दर्शाई जाती हैं :

1. वसूली खाते के ऋणी पक्ष
2. वसूली खाते के धनी पक्ष
3. बैंक खाते के धनी पक्ष
4. बैंक खाते के ऋणी पक्ष

Options :

485584151297. 1
485584151298. 2
485584151299. 3
485584151300. 4

Question Number : 111 Question Id : 48558437826 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Satish was appointed to look after the dissolution work for which he was allowed a remuneration of ₹ 14,000. He agreed to take over the investment of the book value of ₹ 11,000 towards payment of his full remuneration. (Investments have already been transferred to Realisation A/c) Journalize.

1. No Entry
2. Dr. Realisation A/c ₹14,000; Cr. Bank A/c ₹14,000
3. Dr. Realisation A/c ₹11,000; Cr. Bank A/c ₹11,000.
4. Dr. Satish's Capital A/c ₹14,000; Cr Bank A/c ₹14,000

Options :

485584151301. 1
485584151302. 2
485584151303. 3
485584151304. 4

Question Number : 111 Question Id : 48558437826 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

सतीश की नियुक्ति विघटन कार्य की देखभाल करने हेतु जिसके लिए उसे ₹ 14000 का पारिश्रमिक मिलना है। वह अपने पूर्ण पारिश्रमिक के भुगतान हेतु ₹11000 पुस्तक मूल्य का निवेश लेने पर सहमत हुआ (निवेश पहले से ही वसूली खाते में हस्तांतरित हो चुका है) प्रविष्टि कीजिये।

1. कोई प्रविष्टि नहीं
2. वसूली खाता ऋणी ₹14000; बैंक खाता धनी ₹14000
3. वसूली खाता ऋणी ₹11000; बैंक खाता धनी ₹11000
4. सतीश का पूंजी खाता ऋणी ₹14000; बैंक खाता धनी ₹14000

Options :

485584151301. 1
485584151302. 2
485584151303. 3
485584151304. 4

Question Number : 112 Question Id : 48558437827 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

At the time of dissolution of partnership firm, debtors were realised at a discount of 5% (Book value was ₹ 48,000). Amount realised at the time of dissolution was-

1. ₹ 47,600
2. ₹ 44,600
3. ₹ 48,000
4. ₹ 45,600

Options :

485584151305. 1
485584151306. 2
485584151307. 3
485584151308. 4

Question Number : 112 Question Id : 48558437827 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

साझेदारी फर्म के विघटन के समय, देनदार 5% के बट्टे पर वसूल हुये (पुस्तक मूल्य ₹ 48,000 था) विघटन के समय वसूल हुए राशि थी.

1. ₹ 47,600
2. ₹ 44,600
3. ₹ 48,000
4. ₹ 45,600

Options :

485584151305. 1
485584151306. 2
485584151307. 3
485584151308. 4

Question Number : 113 Question Id : 48558437828 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

As per the Financial Statement of X Ltd, its shareholders' funds are ₹ 25,00,000. Non current liabilities are ₹ 4,80,000 and current liabilities are ₹ 10,00,000. Non current assets are ₹ 13,80,000. Working capital of the company is:

1. ₹ 16,00,000
2. ₹ 29,80,000
3. ₹ 33,80,000
4. ₹ 34,00,000

Options :

485584151309. 1
485584151310. 2
485584151311. 3
485584151312. 4

Question Number : 113 Question Id : 48558437828 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

X लि० के वित्तीय विवरण के अनुसार अभिधारकों की निधि ₹ 25,00,000 है गैर -चालू दायित्व ₹ 4,80,000 तथा चालू दायित्व ₹ 10,00,000 है गैर चालू परिसंपत्तिया ₹ 13,80,000 है कंपनी की कार्यशील पूंजी है -

1. ₹ 16,00,000
2. ₹ 29,80,000
3. ₹ 33,80,000
4. ₹ 34,00,000

Options :

485584151309. 1
485584151310. 2
485584151311. 3
485584151312. 4

Question Number : 114 Question Id : 48558437829 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

From the following Particulars, calculate cash flow from investing activities:-

A plot of land been purchased for investment purpose and was let out for commercial use and rent received ₹ 30,000,

Interest paid on debentures ₹ 60,000

Purchase of Plant ₹ 4,40,000

Goodwill written off ₹ 20,000

Sale of Land ₹ 5,00,000

1. ₹ 70,000
2. ₹ 1,50,000
3. ₹ 30,000
4. ₹ 90,000

Options :

485584151313. 1
485584151314. 2
485584151315. 3
485584151316. 4

Question Number : 114 Question Id : 48558437829 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

निम्नलिखित विवरणों से निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिये :-

पदि भूखंड निवेश उद्देश्य से क्रय किया तथा व्यापारिक प्रयोग हेतु किराये पर दिया तथा प्राप्त किराया ₹ 30,000 है

ऋणपत्रों पर व्याज का भुगतान
=60,000

संयंत्र का क्रय ₹ 4,40,000

अपलिखित ख्याति ₹
20,000

भूमि का विक्रय ₹ 5,00,000

1. ₹ 70,000
2. ₹ 1,50,000
3. ₹ 30,000
4. ₹ 90,000

Options :

485584151313. 1
485584151314. 2
485584151315. 3
485584151316. 4

Question Number : 115 Question Id : 48558437830 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Match List I with List II

LIST I		LIST II	
A.	Revaluation Reserve	I.	Share Capital
B.	Issued Capital	II.	Other Non current Assets
C.	Discount on issue of debentures	III.	Inventories
D.	Loose tool	IV.	Reserve and Surplus

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-III, B-IV, C-I, D-II
4. A-IV, B-I, C-II, D-III

Options :

485584151317. 1
485584151318. 2
485584151319. 3
485584151320. 4

Question Number : 115 Question Id : 48558437830 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I		सूची II	
A.	पुनर्मूल्यांकन संचय	I.	अंश पूंजी
B.	निर्गमित पूंजी	II.	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ
C.	ऋणपत्रों के निर्गमन पर छूट	III.	रहतिपा
D.	कल पूंजी	IV.	आरक्षितिया तथा अधिशेष

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-III, B-IV, C-I, D-II
4. A-IV, B-I, C-II, D-III

Options :

485584151317. 1
485584151318. 2
485584151319. 3
485584151320. 4

Question Number : 116 Question Id : 48558437831 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Which of the following item is not considered as cash and cash equivalent?

1. Treasury Bills
2. Commercial Papers
3. Marketable Securities
4. Bills of Exchange

Options :

485584151321. 1
485584151322. 2
485584151323. 3
485584151324. 4

Question Number : 116 Question Id : 48558437831 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

निम्नलिखित में से किस मद को रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यांक नहीं माना जाता?

1. राजकोष बिल
2. वाणिज्यिक पत्र
3. विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ
4. विनियम विपत्र

Options :

485584151321. 1
485584151322. 2
485584151323. 3
485584151324. 4

Question Number : 117 Question Id : 48558437832 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Method of codification should be:

1. Easy to understand, cryptic and process data
2. Such that it leads to grouping of accounts
3. An identification mark
4. To safeguard assets

Options :

485584151325. 1
485584151326. 2
485584151327. 3

Question Number : 117 Question Id : 48558437832 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

सहिताकरण की विधि होनी चाहिये

1. समझने में सरल, रहस्यमय तथा आकड़े प्रक्रिया
2. ऐसी जो कि खातों के समूहीकरण की ओर ले जाये
3. चिन्ह पर एक अभिज्ञान
4. परिसंपत्तियों हेतु रक्षोपाय

Options :

485584151325. 1
485584151326. 2
485584151327. 3
485584151328. 4

Question Number : 118 Question Id : 48558437833 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Which mathematical operator is represented by an asterik (*) ?

1. Multiplication
2. Subtraction
3. Addition
4. Exponentiation

Options :

485584151329. 1
485584151330. 2
485584151331. 3
485584151332. 4

Question Number : 118 Question Id : 48558437833 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

कौन - सा गणितीय प्रचालक एस्ट्रीक (*) द्वारा प्रस्तुत होता है -

1. गुणन
2. घटाना
3. जोड़ना
4. घातांकी

Options :

485584151329. 1
485584151330. 2
485584151331. 3
485584151332. 4

Question Number : 119 Question Id : 48558437834 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

In what cell is the Rate for PMT function where = PMT (C8, C9, C10, C11, C12)?

1. C8
2. C10
3. C9
4. C12

Options :

485584151333. 1
485584151334. 2
485584151335. 3
485584151336. 4

Question Number : 119 Question Id : 48558437834 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

PMT कार्य के लिए दर किस पंक्ति में है, जहाँ = PMT (C8, C9, C10, C11, C12)?

1. C8
2. C10
3. C9
4. C12

Options :

485584151333. 1
485584151334. 2
485584151335. 3
485584151336. 4

Question Number : 120 Question Id : 48558437835 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

The term 'record' as applied to a database table mean:

1. Name of the table
2. Horizontal row of the table
3. Size of the table
4. Vertical column of the table

Options :

485584151337. 1

485584151338. 2

485584151339. 3

485584151340. 4

Question Number : 120 Question Id : 48558437835 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

एक आंकड़े आधारित सारणी में 'record' शब्द का तात्पर्य है :-

1. सारणी का नाम
2. सारणी की क्षैतिज पंक्ति
3. सारणी का आकार
4. सारणी का लम्बवत स्तंभ

Options :

485584151337. 1

485584151338. 2

485584151339. 3

485584151340. 4

Question Number : 121 Question Id : 48558437836 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Data Ltd. purchased assets of the book value ₹ 4,00,000 and took over the liability of ₹ 50,000 from Sonu Ltd. It was agreed that purchase consideration will be settled by cheque of ₹ 1,00,000 and by issue of ₹ 2,00,000, 10% debentures at premium of 25%. The Amount of goodwill/capital reserve will be

1. ₹ 30,000 Capital reserve
2. ₹ 30,000 goodwill
3. ₹ 50,000 Capital reserve
4. There will not be any Goodwill or Capital Reserve

Options :

485584151341. 1
485584151342. 2
485584151343. 3
485584151344. 4

Question Number : 121 Question Id : 48558437836 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

डाटा लि. ने सोना लि. से ₹ 4,00,000 पुस्तक मूल्य की परिसंपत्तियां ₹ 50,000 के दायित्व लिए। यह सहमति हुई कि क्रय प्रतिफल का भुगतान ₹1,00,000 चेक द्वारा तथा ₹ 2,00,000 के 10% ऋणपत्रों का 25% प्रीमियम पर निर्गमन द्वारा किया जाएगा। ख्याति / पूँजीगत संचय की राशि होगी -

1. ₹ 30,000 पूँजीगत संचय
2. ₹ 30,000 ख्याति
3. ₹ 50,000 पूँजीगत संचय
4. ख्याति एवं पूँजी संचय नहीं होगा

Options :

485584151341. 1
485584151342. 2
485584151343. 3
485584151344. 4

Question Number : 122 Question Id : 48558437837 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Arrange the following in the context of Issue of shares

- A. Making calls on shares
- B. Reissue of forfeited shares
- C. Calls in Arrear
- D. Transferring profit on reissue of shares to Capital Reserve
- E. Forfeiture of shares

Choose the correct answer from the options given below:

- 1. A, B, C, D, E
- 2. A, C, E, B, D
- 3. A, C, D, E, B
- 4. A, B, D, E, C

Options :

- 485584151345. 1
- 485584151346. 2
- 485584151347. 3
- 485584151348. 4

Question Number : 122 Question Id : 48558437837 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

निम्नलिखित को अंशों के निर्गमन के सन्दर्भ में व्यवस्थित कीजिए

- A. अंशों पर याचना मांगना
- B. हरणित अंशों का पुनः निर्गमन
- C. ब्रकाया मांग
- D. पुनः निर्गमन पर लाभ को पूँजीगत संचय में हस्तांतरण
- E. अंशों का हरण

नीचे दिये गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- 1. A, B, C, D, E
- 2. A, C, E, B, D
- 3. A, C, D, E, B
- 4. A, B, D, E, C

Options :

- 485584151345. 1
- 485584151346. 2
- 485584151347. 3
- 485584151348. 4

Question Number : 123 Question Id : 48558437838 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Company issues 10,000, 12% debentures of ₹ 100 each at par, redeemable at premium of 5% after 5 years. At the time of allotment; journal Entry will be:

1. Bank A/c Dr 10,50,000
 To Debenture application and Allotment A/c 10,00,000
 To Premium on Redemption an Debentures A/c 50,000
2. Bank A/c Dr 10,12,000
 To debenture Application and allotment A/c 10,12,000
3. Bank A/c Dr 10,70,000
 To Debenture Application and Allotment A/c 10,70,000
4. Debenture Application and Allotment A/c Dr 10,00,000
 Loss of Issue of Debenture Dr 50,000
 To 12% Debenture A/c 10,00,000
 To premium on Redemption of Debentures A/c 50,000

Options :

485584151349. 1
 485584151350. 2
 485584151351. 3
 485584151352. 4

Question Number : 123 Question Id : 48558437838 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
 Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

10,000, 12% ऋणपत्रों ₹100 प्रत्येक वाले का सममूल्य पर निर्गमन लेकिन 5% प्रीमियम पर 5 वर्ष बाद शोधनीय :

ऋणपत्रों के आबंटन के समय रोजनामचा प्रविष्टि होगी -

1. बैंक खाता ऋणों 10,50,000
 ऋणपत्र अ आवेदन तथा आबंटन खाते से 10,00,000
 प्रीमियम पर शोधन से 50,000
2. बैंक खाता ऋणों 10,12,000
 ऋणपत्र आवेदन तथा आबंटन खाते से 10,12,000
3. बैंक खाता ऋणों 10,70,000
 ऋणपत्र आवेदन तथा आबंटन खाते से 10,70,000
4. ऋणपत्र आवेदन तथा आबंटन खाता ऋणों 10,00,000
 ऋणपत्र के निर्गमन पर हानि खाता ऋणी 50,000
 12% ऋणपत्र खाते से 10,00,000
 प्रीमियम पर शोधन खाते से 50,000

Options :

485584151349. 1
 485584151350. 2
 485584151351. 3
 485584151352. 4

Question Number : 124 Question Id : 48558437839 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Debentures can be redeemed in following ways except:-

1. Payments in instalments
2. Purchase in open market
3. Payment in lump sum
4. Payment in fixed asset

Options :

485584151353. 1
485584151354. 2
485584151355. 3
485584151356. 4

Question Number : 124 Question Id : 48558437839 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ऋणपत्रों का शोधन निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है सिवाय :-

1. किस्तों में भुगतान
2. खुले बाजार में क्रय
3. एकमुश्त भुगतान
4. स्थायी परिसंपत्तियों में भुगतान

Options :

485584151353. 1
485584151354. 2
485584151355. 3
485584151356. 4

Question Number : 125 Question Id : 48558437840 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Royan Ltd. issued 1,00,000 9% debentures of ₹100 each to public. Issue was subscribed. The amount will be shown as:

1. Operating Activity
2. Investing Activity
3. Financing Activity
4. Cash and Cash equivalent

Options :

485584151357. 1
485584151358. 2
485584151359. 3
485584151360. 4

Question Number : 125 Question Id : 48558437840 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

रोयान लि. ने 1,00,000, 9% ऋणपत्रों, ₹100 प्रत्येक का निर्गमन किया। निर्गमन अभिदत्त था। प्राप्त हुई राशि को _____ के रूप में दर्शाया जायेगा।

1. प्रचालन क्रियाकलाप
2. निवेश क्रियाकलाप
3. वित्तीय क्रियाकलाप
4. रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यांक

Options :

485584151357. 1
485584151358. 2
485584151359. 3
485584151360. 4

Question Number : 126 Question Id : 48558437841 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Given below are the extracts of information from Financial statements of Zucca Ltd.

Particular	2020-21	2021-22
I Equities and Liabilities		
Share holder's funds		
Reserve and Surplus (Statement of Profit and Loss)	4,00,000	7,00,000
Current liabilities :- Dividend Payable		40,000
	-	

Calculate amount of Net Profit after tax, if an interim dividend of ₹ 2,00,000 was declared and paid.

1. ₹ 3,00,000
2. ₹ 5,00,000
3. ₹ 4,60,000
4. ₹ 5,40,000

Options :

485584151361. 1
485584151362. 2
485584151363. 3
485584151364. 4

Question Number : 126 Question Id : 48558437841 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

जुवका लि. के वित्तीय विवरणों से नीचे सूचनाएँ दी गई हैं :-

विवरण	2020-21	2021-22
I समता एवं देयताएं		
1. अंश धारक की निधि		
आरक्षितियाँ तथा अधिशेष (लाभ व हानि विवरण)	4,00,000	7,00,000
2. बातू दायित्व देय लाभांश		40,000
	-	

कर पश्चात् शुद्ध लाभ की गणना कीजिये, यदि ₹ 2,00,000 के लाभांश की घोषणा तथा भुगतान किया गया।

1. ₹ 3,00,000
2. ₹ 5,00,000
3. ₹ 4,60,000
4. ₹ 5,40,000

Options :

485584151361. 1
485584151362. 2
485584151363. 3
485584151364. 4

Question Number : 127 Question Id : 48558437842 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

The old profit sharing ratio among A, B and C were 2:2:1. The new Profit sharing ratio after B's retirement is 3:2. The gaining ratio is-

1. 2:1
2. 3:2
3. 1:1
4. 2:3

Options :

485584151365. 1
485584151366. 2
485584151367. 3
485584151368. 4

Question Number : 127 Question Id : 48558437842 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

A, B तथा C के मध्य पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1 था। B की सेवानिवृत्ति पश्चात् नया लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। अधिलाभ अनुपात है :-

1. 2:1
2. 3:2
3. 1:1
4. 2:3

Options :

485584151365. 1
485584151366. 2
485584151367. 3
485584151368. 4

Question Number : 128 Question Id : 48558437843 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

P, Q and R are Partners sharing Profits and losses equally. R retires and Goodwill is appearing in the books at ₹ 30,000. Goodwill of the firm is valued at ₹ 1,50,000. Calculate the net amount to be credited to R's Capital A/c for adjustment of goodwill:

1. ₹ 60,000
2. ₹ 50,000
3. ₹ 40,000
4. ₹ 10,000

Options :

485584151369. 1
485584151370. 2
485584151371. 3
485584151372. 4

Question Number : 128 Question Id : 48558437843 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

P, Q तथा R साझेदार हैं जो लाभ तथा हानि का विभाजन समान अनुपात में करते हैं। R सेवानिवृत्ति होता है तथा पुस्तकों में ₹ 30,000 ख्याति विद्यमान है। फर्म की ख्याति ₹ 1,50,000, मूल्यांकित हुई ख्याति समायोजन हेतु R के पूंजी खाते में धनी होने वाली शुद्ध राशि की गणना कीजिये।

1. ₹ 60,000
2. ₹ 50,000
3. ₹ 40,000
4. ₹ 10,000

Options :

485584151369. 1
485584151370. 2
485584151371. 3
485584151372. 4

Question Number : 129 Question Id : 48558437844 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

In case of dissolution of firm, Assets shall be applied in the order of -

- A. Paying loan from Partners.
- B. Paying secured debts of the firm
- C. Paying Partners Capital in proportion
- D. Paying unsecured debts of the firm
- E. The residue shall be divided among the partners in their Profit sharing ratio.

Choose the correct answer from the options given below:

- 1. A, B, E, C, D
- 2. B, D, A, C, E
- 3. B, E, D, A, C
- 4. E, D, A, B, C

Options :

- 485584151373. 1
- 485584151374. 2
- 485584151375. 3
- 485584151376. 4

Question Number : 129 Question Id : 48558437844 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

फर्म का विघटन की दशा में, परिसंपत्तियों के उपयोग का क्रम होगा -

- A. साझेदारों से ऋण का भुगतान
- B. फर्म के सुरक्षित ऋणों का भुगतान
- C. साझेदारों की पूंजी का अनुपातिक भुगतान
- D. फर्म के असुरक्षित ऋणों का भुगतान
- E. शेष राशि साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित होगी।

नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिये :

- 1. A, B, E, C, D
- 2. B, D, A, C, E
- 3. B, E, D, A, C
- 4. E, D, A, B, C

Options :

- 485584151373. 1
- 485584151374. 2
- 485584151375. 3
- 485584151376. 4

Question Number : 130 Question Id : 48558437845 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Identify the correct sequence to be followed at the time of Death of Partner:

- A. Calculation of gaining Ratio.
- B. Treatment of goodwill
- C. Calculation of new Profit Ratio
- D. Calculation of Amount transferred to Decreased Partner's Executor
- E. Preparation of deceased Partner Capital Account

Choose the correct answer from the options given below:

- 1. C, D, E, A, B
- 2. A, D, B, C, E
- 3. C, A, B, E, D
- 4. E, A, B, C, D

Options :

- 485584151377. 1
- 485584151378. 2
- 485584151379. 3
- 485584151380. 4

Question Number : 130 Question Id : 48558437845 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

साझेदारों की मृत्यु के समय अनुसरण किये जाने वाले सही क्रम को पहचानिये

- A. अधिलाभ अनुपात की गणना
- B. ख़ाति की गणना
- C. नये लाभ - विभाजन अनुपात का निर्धारण
- D. मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को हस्तांतरित राशि की गणना करना
- E. मृत साझेदार का पूंजी खाता तैयार करना

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिये :

- 1. C, D, E, A, B
- 2. A, D, B, C, E
- 3. C, A, B, E, D
- 4. E, A, B, C, D

Options :

- 485584151377. 1
- 485584151378. 2
- 485584151379. 3
- 485584151380. 4

Question Number : 131 Question Id : 48558437846 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

_____ is a measure of liquidity which excludes _____.

- A. Liquid Ratio
- B. Current Ratio
- C. Debt equity Ratio
- D. Inventory
- E. Debtor

Choose the correct answer from the options given below:

- 1. A and D only
- 2. B and E only
- 3. C and D only
- 4. D and E only

Options :

- 485584151381. 1
- 485584151382. 2
- 485584151383. 3
- 485584151384. 4

Question Number : 131 Question Id : 48558437846 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

_____ द्रवता का एक मापक है जो _____ को बाहिष्कृत करता है।

- A. तरलता अनुपात
- B. चालू अनुपात
- C. ऋण-समता अनुपात
- D. रहतिया
- E. देनदार

नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिये :

- 1. केवल A और D
- 2. केवल B और E
- 3. केवल C और D
- 4. केवल D और E

Options :

- 485584151381. 1
- 485584151382. 2
- 485584151383. 3
- 485584151384. 4

Question Number : 132 Question Id : 48558437847 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

As per AS 3 (Revised) while preparing cash flow statement the correct sequence to be followed is

- A. Calculation of Cash flow from Financing Activities
- B. Calculation of cash flow from Operating Activities
- C. Calculation of cash flow from Investing Activities
- D. Calculation of net changes in cash and cash equivalents during the year
- E. Calculation of net profit before tax and extra-ordinary items

Choose the correct answer from the options given below:

- 1. A, C, B, D, E
- 2. E, B, C, A, D
- 3. E, B, A, C, D
- 4. D, C, B, A, E

Options :

- 485584151385. 1
- 485584151386. 2
- 485584151387. 3
- 485584151388. 4

Question Number : 132 Question Id : 48558437847 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

लेखांकन मानक (AS)-3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय अनुसरण किया जाने वाला आवश्यक क्रम है

- A. वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना करना
- B. प्रचालन क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना करना
- C. निवेश क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना करना
- D. वर्ष के दौरान रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यांक में शुद्ध परिवर्तन की गणना करना
- E. कराधान तथा असाधारण मदों पूर्व शुद्ध लाभ की गणना करना

नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिये:

- 1. A, C, B, D, E
- 2. E, B, C, A, D
- 3. E, B, A, C, D
- 4. D, C, B, A, E

Options :

- 485584151385. 1
- 485584151386. 2
- 485584151387. 3
- 485584151388. 4

Question Number : 133 Question Id : 48558437848 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

The sum due to the retiring Partners includes:-

- A. Share of remaining partners goodwill.
- B. Credit balance of his capital Account.
- C. His share of accumulated profits.
- D. His share of Goodwill.
- E. Cash brought in by remaining partners for adjustment of capital.

Choose the correct answer from the options given below:

- 1. A, C and E only
- 2. B, C and D only
- 3. A, B and E only
- 4. A, B and C only

Options :

485584151389. 1
485584151390. 2
485584151391. 3
485584151392. 4

Question Number : 133 Question Id : 48558437848 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

सेवानिवृत्त साझेदार को कुल देय में सम्मिलित हैं:-

- A. शेष साझेदारों की ख्याति का भाग
- B. उसके पूंजी खाते का धनी शेष
- C. संचित लाभों का उसका भाग
- D. उसकी ख्याति का भाग
- E. शेष साझेदारों द्वारा पूंजी समायोजन हेतु लाया गया रोकड़

नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिये:

- 1. केवल A, C और E
- 2. केवल B, C और D
- 3. केवल A, B और E
- 4. केवल A, B और C

Options :

485584151389. 1
485584151390. 2
485584151391. 3
485584151392. 4

Question Number : 134 Question Id : 48558437849 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Non current Assets includes -

- A. Capital work -in- Progress
- B. Deferred tax Assets (net)
- C. Loose tools
- D. Railway slidings
- E. Inventory

Choose the correct answer from the options given below:

- 1. A, B and C only
- 2. A, C and E only
- 3. A, B and D only
- 4. B, C and E only

Options :

- 485584151393. 1
- 485584151394. 2
- 485584151395. 3
- 485584151396. 4

Question Number : 134 Question Id : 48558437849 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

गैर - चालू परिसंपत्तियों में सम्मिलित हैं -

- A. चालू पूंजी संकर्म
- B. आस्थगित कर परिसंपत्तिपां (शुद्ध)
- C. कले पुर्जे
- D. रेलवे पट्टी
- E. रहतिया

नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिये:

- 1. केवल A, B और C
- 2. केवल A, C और E
- 3. केवल A, B और D
- 4. केवल B, C और E

Options :

- 485584151393. 1
- 485584151394. 2
- 485584151395. 3
- 485584151396. 4

Question Number : 135 Question Id : 48558437850 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Debt Redemption Reserve is created by:-

- A. Service Sector Company
- B. Manufacturing Company
- C. Banking Company
- D. Automobile Company
- E. NBFC's registered with RBI

Choose the correct answer from the options given below:

- 1. A, C and E only
- 2. A, B and D only
- 3. A, B and E only
- 4. B, C and D only

Options :

- 485584151397. 1
- 485584151398. 2
- 485584151399. 3
- 485584151400. 4

Question Number : 135 Question Id : 48558437850 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

ऋणपत्र शोधन संचय _____ के द्वारा सृजित किया जाता है ?

- A. सेवा क्षेत्र कंपनी
- B. उत्पादक कंपनी
- C. बैंकिंग कंपनी
- D. ऑटोमोबाइल कंपनी
- E. RBI के साथ NBFC's पंजीकृत

नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिये:

- 1. केवल A, C और E
- 2. केवल A, B और D
- 3. केवल A, B और E
- 4. केवल B, C और D

Options :

- 485584151397. 1
- 485584151398. 2
- 485584151399. 3
- 485584151400. 4

Question Number : 136 Question Id : 48558437851 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Reconstitution of Partnership means:

- A. Change in Profit sharing Ratio among existing partners
- B. Dissolution of Partnership firm
- C. Retirement of Partner
- D. Admission of Partner
- E. Death of Partner

Choose the correct answer from the options given below:

- 1. A, B, D and E only
- 2. A, B, C and D only
- 3. A, C, D and E only
- 4. B, C, D and E only

Options :

- 485584151401. 1
- 485584151402. 2
- 485584151403. 3
- 485584151404. 4

Question Number : 136 Question Id : 48558437851 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

साझेदारी का पुनर्गठन का तात्पर्य है -

- A. वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन
- B. साझेदारी फर्म का विघटन
- C. साझेदार की सेवानिवृत्ति
- D. साझेदार का प्रवेश
- E. साझेदार की मृत्यु

नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिये।

- 1. केवल A, B, D और E
- 2. केवल A, B, C और D
- 3. केवल A, C, D और E
- 4. केवल B, C, D और E

Options :

- 485584151401. 1
- 485584151402. 2
- 485584151403. 3
- 485584151404. 4

Question Number : 137 Question Id : 48558437852 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Match List I with List II

LIST I		LIST II	
A	Liquidity Ratio	I	Proprietary Ratio
B	Solvency Ratio	II	Trade Receivable turnover Ratio
C	Activity Ratio	III	Operating Ratio
D	Profitability Ratio	IV	Current Ratio

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-I, B-IV, C-III, D-II
2. A-III, B-IV, C-I, D-II
3. A-IV, B-I, C-II, D-III
4. A-IV, B-II, C-I, D-III

Options :

485584151405. 1
485584151406. 2
485584151407. 3
485584151408. 4

Question Number : 137 Question Id : 48558437852 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I		सूची II	
A	द्रवता अनुपात	I	स्वामित्व अनुपात
B	ऋण शोधन क्षमता अनुपात	II	व्यापार प्राप्त आयत अनुपात
C	सक्रियता अनुपात	III	प्रचालन अनुपात
D	ताभप्रदता अनुपात	IV	वालू अनुपात

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-I, B-IV, C-III, D-II
2. A-III, B-IV, C-I, D-II
3. A-IV, B-I, C-II, D-III
4. A-IV, B-II, C-I, D-III

Options :

485584151405. 1
485584151406. 2
485584151407. 3
485584151408. 4

Question Number : 138 Question Id : 48558437853 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Match List I with List II

LIST I		LIST II	
Formula		Term/Item	
A	Current liabilities + working capital	I	Capital Employed
B	Shareholders Fund + Debts	II	Operating Cost
C	Operating Expenses + Cost of Revenue from operation	III	Current Assets
D	Net Profit + Non Operating Expenses (-) Non-Operating Income	IV	Operating Profit

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-III, B-I, C-II, D-IV
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584151409. 1
485584151410. 2
485584151411. 3
485584151412. 4

Question Number : 138 Question Id : 48558437853 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I (सूत्र)		सूची II शब्द/मद	
A	चालू दायित्व + कार्यशील पूंजी	I	निवेशित पूंजी
B	असाधारक की निधि + ऋण	II	प्रचालन लागत
C	प्रचालन व्यय + प्रचालन से आगम की लागत	III	चालू परिसंपत्तियाँ
D	शुद्ध लाभ + गैर - प्रचालन व्यय - गैर प्रचालन आय	IV	प्रचालन लाभ

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-III, B-I, C-II, D-IV
4. A-I, B-III, C-IV, D-II

Options :

485584151409. 1
485584151410. 2
485584151411. 3
485584151412. 4

Question Number : 139 Question Id : 48558437854 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Match List I with List II

LIST I		LIST II	
A.	Operating Activities	I.	Depreciation
B.	Investing Activities	II.	Cash Paid to Supplier
C.	Financing Activities	III.	Sale of Land
D.	Non Cash item	IV.	Increase in Share Capital

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-II, B-III, C-I, D-IV
2. A-I, B-III, C-IV, D-II
3. A-I, B-II, C-IV, D-III
4. A-II, B-III, C-IV, D-I

Options :

485584151413. 1
485584151414. 2
485584151415. 3
485584151416. 4

Question Number : 139 Question Id : 48558437854 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I		सूची II	
A.	प्रचालन क्रियाकलाप	I.	ह्रास
B.	निवेश क्रियाकलाप	II.	पूर्तिकर्ताओं को नकद भुगतान
C.	वित्तीय क्रियाकलाप	III.	भूमि का विक्रय
D.	गैर-रोकड़ मद	IV.	अंश पूँजी में वृद्धि

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-II, B-III, C-I, D-IV
2. A-I, B-III, C-IV, D-II
3. A-I, B-II, C-IV, D-III
4. A-II, B-III, C-IV, D-I

Options :

485584151413. 1
485584151414. 2
485584151415. 3
485584151416. 4

Question Number : 140 Question Id : 48558437855 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

Match List I with List II

LIST I		LIST II	
A	Super Profit	I	Actual Average Profit - Normal Profit
B	Normal Profit	II	$\frac{\text{Super Profit} \times 100}{\text{Normal rate of return}}$
C	Goodwill	III	Total Assets - Outside Liabilities
D	Capital Employed	IV	$\frac{\text{Capital Employed} \times \text{Normal Rate of Return}}{100}$

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-I, B-II, C-IV, D-III
2. A-IV, B-II, C-I, D-III
3. A-I, B-IV, C-II, D-III
4. A-I, B-IV, C-III, D-II

Options :

485584151417. 1
485584151418. 2
485584151419. 3
485584151420. 4

Question Number : 140 Question Id : 48558437855 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0
Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	MCQ

सूची - I का सूची - II से मिलान कीजिये

सूची I		सूची II	
A	अधिलाभ	I	वास्तविक औसत लाभ - सामान्य लाभ
B	सामान्य लाभ	II	$\frac{\text{अधिलाभ} \times 100}{\text{सामान्य प्रत्याय दर}}$
C	रूपाति	III	कुल परिसंपत्तियाँ - बाह्यदायित्व
D	निवेशित पूँजी	IV	$\frac{\text{निवेशित पूँजी} \times \text{सामान्य प्रत्याय दर}}{100}$

नीचे दिये गये विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिये: निवेशित पूँजी

1. A-I, B-II, C-IV, D-III
2. A-IV, B-II, C-I, D-III
3. A-I, B-IV, C-II, D-III
4. A-I, B-IV, C-III, D-II

Options :

485584151417. 1
485584151418. 2
485584151419. 3
485584151420. 4

Sub-Section Number :

Sub-Section Id :

Question Shuffling Allowed :

Is Section Default? :

2

4855842901

No

null

Question Number : 141 Question Id : 48558437856 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

Read the following case study and answer Q 41-45.

Surya Ltd issued 10,000 equity shares of ₹ 50 each at a premium of 10%. The company received application for 13,000 shares. The amount was payable as: on application 30%, on allotment 30% plus Premium; on 1st call 10% and Balance on final call. Allotment was made pro-rata for all applicants. Excess application money received is to be adjusted on allotment. Company received all money called except from Manan, an applicant, of 300 shares. Manan Paid only application money. His shares were forfeited and 70% of the forfeited shares were reissued as fully paid for ₹ 40 each.

What amount is received by company in securities Premium Reserve Account

1. ₹ 50,000
2. ₹ 48,050
3. ₹ 58,500
4. ₹ 48,500

Options :

485584151421. 1
485584151422. 2
485584151423. 3
485584151424. 4

Question Number : 141 Question Id : 48558437856 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

सूर्या लि. ने ₹50 प्रत्येक वाले 10,000 समता अंशों का 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया। कंपनी को 13,000 अंशों के लिये आवेदन प्राप्त हुये। राशि निम्न प्रकार देय था:- 30% आवेदन पर, 30% तथा प्रीमियम आवंटन पर, 10% प्रथम याचना पर तथा शेष अंतिम याचना पर। सभी आवेदकों को आनुपातिक आवंटन किया गया। अतिरिक्त आवेदन राशि का आवंटन पर समायोजन करना है। कंपनी को सभी याचित राशि प्राप्त हुई सिवाय मनन 300 अंशों के आवेदक के। मनन ने केवल आवेदन राशि का भुगतान किया उसके अंशों का हरण कर लिया गया। हरण किये गये अंशों में से 70% अंशों का ₹ 40 प्रत्येक पूर्ण भुगतानित रूप में पुनः निर्गमन कर दिया गया।

उपरोक्त पद्यांश से प्रश्न 41 से 45 के उत्तर दीजिये।

प्रतिभूति प्रीमियम खाते में कंपनी द्वारा कितनी राशि प्राप्त हुई?

1. ₹ 50,000
2. ₹ 48,050
3. ₹ 58,500
4. ₹ 48,500

Options :

485584151421. 1
485584151422. 2
485584151423. 3
485584151424. 4

Question Number : 142 Question Id : 48558437857 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

Read the following case study and answer Q 41-45.

Surya Ltd issued 10,000 equity shares of ₹ 50 each at a premium of 10%. The company received application for 13,000 shares. The amount was payable as: on application 30%, on allotment 30% plus Premium; on 1st call 10% and Balance on final call. Allotment was made pro-rata for all applicants. Excess application money received is to be adjusted on allotment. Company received all money called except from Manan, an applicant, of 390 shares. Manan Paid only application money. His shares were forfeited and 70% of the forfeited shares were reissued as fully paid for ₹ 40 each.

Calculate the amount received by Surya limited on allotment

1. ₹ 2,00,000
2. ₹ 1,96,350
3. ₹ 1,50,350
4. ₹ 193,650

Options :

485584151425. 1
485584151426. 2
485584151427. 3
485584151428. 4

Question Number : 142 Question Id : 48558437857 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

सूर्या लि. ने ₹50 प्रत्येक वाले 10,000 समता अंशों का 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया। कंपनी को 13,000 अंशों के लिये आवेदन प्राप्त हुये। राशि निम्न प्रकार देय था:- 30% आवेदन पर, 30% तथा प्रीमियम आवंटन पर, 10% प्रथम याचना पर तथा शेष अंतिम याचना पर। सभी आवेदकों को आनुपातिक आवंटन किया गया। अतिरिक्त आवेदन राशि का आवंटन पर समायोजन करना है। कंपनी को सभी याचित राशि प्राप्त हुई सिवाय मनन 390 अंशों के आवेदक के। मनन ने केवल आवेदन राशि का भुगतान किया उसके अंशों का हरण कर लिया गया। हरण किये गये अंशों में से 70% अंशों का ₹ 40 प्रत्येक पूर्ण भुगतानित रूप में पुनः निर्गमन कर दिया गया।

उपरोक्त पद्यांश से प्रश्न 41 से 45 के उत्तर दीजिये।

सूर्या लि. द्वारा आवंटन पर प्राप्त राशि की गणना कीजिये

1. ₹ 2,00,000
2. ₹ 1,96,350
3. ₹ 1,50,350
4. ₹ 193,650

Options :

485584151425. 1
485584151426. 2
485584151427. 3
485584151428. 4

Question Number : 143 Question Id : 48558437858 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

Read the following case study and answer Q 41-45.

Surya Ltd issued 10,000 equity shares of ₹ 50 each at a premium of 10%. The company received application for 13,000 shares. The amount was payable as: on application 30%, on allotment 30% plus Premium; on 1st call 10% and Balance on final call. Allotment was made pro-rata for all applicants. Excess application money received is to be adjusted on allotment. Company received all money called except from Manan, an applicant, of 390 shares. Manan Paid only application money. His shares were forfeited and 70% of the forfeited shares were reissued as fully paid for ₹ 40 each.

Balance of Securities Premium can be utilised for

1. Buying of Asset
2. Conversion of Debentures
3. Buy Back of Shares
4. Repayment of Debts

Options :

485584151429. 1
485584151430. 2
485584151431. 3
485584151432. 4

Question Number : 143 Question Id : 48558437858 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

सूर्य लि. ने ₹50 प्रत्येक वाले 10,000 समता अंशों का 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया। कंपनी को 13,000 अंशों के लिये आवेदन प्राप्त हुये। राशि निम्न प्रकार देय था:- 30% आवेदन पर, 30% तथा प्रीमियम आवंटन पर, 10% प्रथम याचना पर तथा शेष अंतिम याचना पर। सभी आवेदकों को आनुपातिक आवंटन किया गया। अतिरिक्त आवेदन राशि का आवंटन पर समायोजन करना है। कंपनी को सभी याचित राशि प्राप्त हुई सिवाय मनन 390 अंशों के आवेदक के। मनन ने केवल आवेदन राशि का भुगतान किया उसके अंशों का हरण कर लिया गया। हरण किये गये अंशों में से 70% अंशों का ₹ 40 प्रत्येक पूर्ण भुगतानित रूप में पुनः निर्गमन कर दिया गया।

उपरोक्त पद्यांश से प्रश्न 41 से 45 के उत्तर दीजिये।

प्रतिभूति प्रीमियम के शेष का प्रयोग _____ हेतु किया जा सकता है ?

1. परिसंपत्तियों के क्रय
2. ऋणपत्रों के परिवर्तन
3. अंशों के क्रय वापसी
4. ऋणों का पुनः भुगतान

Options :

485584151429. 1
485584151430. 2
485584151431. 3
485584151432. 4

Question Number : 144 Question Id : 48558437859 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

Read the following case study and answer Q 41-45.

Surya Ltd issued 10,000 equity shares of ₹ 50 each at a premium of 10%. The company received application for 13,000 shares. The amount was payable as: on application 30%, on allotment 30% plus Premium; on 1st call 10% and Balance on final call. Allotment was made pro-rata for all applicants. Excess application money received is to be adjusted on allotment. Company received all money called except from Manan, an applicant, of 390 shares. Manan Paid only application money. His shares were forfeited and 70% of the forfeited shares were reissued as fully paid for ₹ 40 each.

Allotment Due per share will be:

1. ₹ 15
2. ₹ 10
3. ₹ 35
4. ₹ 20

Options :

485584151433. 1
485584151434. 2
485584151435. 3
485584151436. 4

Question Number : 144 Question Id : 48558437859 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

सूर्य लि. ने ₹50 प्रत्येक वाले 10,000 समता अंशों का 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया। कंपनी को 13,000 अंशों के लिये आवेदन प्राप्त हुये। राशि निम्न प्रकार देय था:- 30% आवेदन पर, 30% तथा प्रीमियम आवंटन पर, 10% प्रथम याचना पर तथा शेष अंतिम याचना पर। सभी आवेदकों को आनुपातिक आवंटन किया गया। अतिरिक्त आवेदन राशि का आवंटन पर समायोजन करना है। कंपनी को सभी याचित राशि प्राप्त हुई सिवाय मनन 390 अंशों के आवेदक के। मनन ने केवल आवेदन राशि का भुगतान किया उसके अंशों का हरण कर लिया गया। हरण किये गये अंशों में से 70% अंशों का ₹ 40 प्रत्येक पूर्ण भुगतानित रूप में पुनः निर्गमन कर दिया गया।

उपरोक्त पद्यांश से प्रश्न 41 से 45 के उत्तर दीजिये।

प्रत्येक अंश प्रति आवंटन देय होगा -

1. ₹ 15
2. ₹ 10
3. ₹ 35
4. ₹ 20

Options :

485584151433. 1
485584151434. 2
485584151435. 3
485584151436. 4

Question Number : 145 Question Id : 48558437860 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

Read the following case study and answer Q 41-45.

Surya Ltd issued 10,000 equity shares of ₹ 50 each at a premium of 10%. The company received application for 13,000 shares. The amount was payable as: on application 30%, on allotment 30% plus Premium; on 1st call 10% and Balance on final call. Allotment was made pro-rata for all applicants. Excess application money received is to be adjusted on allotment. Company received all money called except from Maman, an applicant, of 390 shares. Maman Paid only application money. His shares were forfeited and 70% of the forfeited shares were reissued as fully paid for ₹ 40 each.

Gain on Re-issue of the shares will be transferred to

1. Share Capital
2. Securities Premium Reserve
3. Capital Reserve
4. General Reserve

Options :

485584151437. 1

485584151438. 2
485584151439. 3
485584151440. 4

Question Number : 145 Question Id : 48558437860 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp1

सूर्या लि. ने ₹50 प्रत्येक वाले 10,000 समता अंशों का 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया। कंपनी को 13,000 अंशों के लिये आवेदन प्राप्त हुये। राशि निम्न प्रकार देय था:- 30% आवेदन पर, 30% तथा प्रीमियम आवंटन पर, 10% प्रथम याचना पर तथा शेष अंतिम याचना पर। सभी आवेदकों को आनुपातिक आवंटन किया गया। अतिरिक्त आवेदन राशि का आवंटन पर समायोजन करना है। कंपनी को सभी याचित राशि प्राप्त हुई सिवाय मनन 390 अंशों के आवेदक के। मनन ने केवल आवेदन राशि का भुगतान किया उसके अंशों का हरण कर लिया गया। हरण किये गये अंशों में से 70% अंशों का ₹ 40 प्रत्येक पूर्ण भुगतानित रूप में पुनः निर्गमन कर दिया गया।

उपरोक्त पद्यांश से प्रश्न 41 से 45 के उत्तर दीजिये।

अंशों के पुनः निर्गमन पर लाभ _____ में हस्तांतरित होगा

1. अंश पूंजी
2. प्रतिभूति प्रीमियम संचय
3. पूंजीगत संचय
4. सामान्य संचय

Options :

485584151437. 1
485584151438. 2
485584151439. 3
485584151440. 4

Sub-Section Number :

3

Sub-Section Id :

4855842902

Question Shuffling Allowed :

No

Is Section Default? :

null

Question Number : 146 Question Id : 48558437861 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

Read the following information provided by a school and attempt Question 46 – 50

The Trial Balance of a school as on 31.3.2017 is

Debit Balance	Amount (₹)	Credit Balance	Amount (₹)
Building	6,25,000	Admission fees	12,500
Furniture	50,000	Tuition fees received	5,00,000
Library books	1,50,000	Creditors for supplies	15,000
Investment @ 12% (1.4.16)	5,00,000	Rent for the school hall	10,000
Salaries	5,00,000	Miscellaneous receipts	30,000
Stationery	40,000	Legacies (general)	3,50,000
General expenses	18,000	General fund	10,00,000
Sports expenses	15,000	Donation for library books	62,500
Cash at bank	1,00,000	Sale of old furniture	20,000
Cash in hand	2,000		
	20,00,000		20,00,000

Additional Information:

The book value of the furniture sold was ₹ 50,000 on April 1, 2016 was sold for ₹ 20,000.

What amount of Interest on investment will be credited to Income and Expenditure account

1. ₹ 60,000
2. ₹ 30,000
3. ₹ 1,20,000
4. ₹ 50,000

Options :

485584151441. 1
485584151442. 2
485584151443. 3
485584151444. 4

Question Number : 146 Question Id : 48558437861 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िये : प्रश्न 46 - 50 के उत्तर दीजिये

एक विद्यालय हेतु नीचे दिये गये तलपट तथा अन्य सूचनाओं से 31-03-2017 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु आय तथा व्यय खाता तथा तुलना पत्र उक्त तिथि को तैयार कीजिये

ऋणी राशि	राशि	धनी शेष	राशि
भवन	6,25,000	प्रवेश शुल्क	12,500
फर्नीचर	50,000	ट्यूशन शुल्क प्राप्त	5,00,000
पुस्तकालय पुस्तक	1,50,000	पुर्ति हेतु लेनदार	15,000
निवेश (12%) 1/4/16	5,00,000	विद्यालय हात हेतु किराया	10,000
खेतन	5,00,000	विविध प्राप्तियाँ	30,000
लेखन सामग्री	40,000	वसीयत (सामान्य)	3,50,000
सामान्य व्यय	18,000	सामान्य निधि	10,00,000
खेत व्यय	15,000	पुस्तकालय की पुस्तकों हेतु दान	62,500
बैंकस्थ रोकड़	1,00,000	पुराने फर्नीचर का विक्रय	20,000
हस्तस्थ रोकड़	2,000		
	20,00,000		20,00,000

अतिरिक्त सूचना :

1 अप्रैल 2016 को ₹50000 पुस्तक मूल्य के फर्नीचर का विक्रय ₹ 20000 में किया गया।

आय तथा व्यय खाते में निवेश पर ब्याज की कितनी राशि धनी होगी ?

1. ₹ 60,000
2. ₹ 30,000
3. ₹ 1,20,000
4. ₹ 50,000

Options :

485584151441. 1
485584151442. 2
485584151443. 3
485584151444. 4

Question Number : 147 Question Id : 48558437862 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

Read the following information provided by a school and attempt Question 46 – 50

The Trial Balance of a school as on 31.3.2017 is

Debit Balance	Amount (₹)	Credit Balance	Amount (₹)
Building	6,25,000	Admission fees	12,500
Furniture	50,000	Tuition fees received	5,00,000
Library books	1,50,000	Creditors for supplies	15,000
Investment @ 12% (1.4.16)	5,00,000	Rent for the school hall	10,000
Salaries	5,00,000	Miscellaneous receipts	30,000
Stationery	40,000	Legacies (general)	3,50,000
General expenses	18,000	General fund	10,00,000
Sports expenses	15,000	Donation for library books	62,500
Cash at bank	1,00,000	Sale of old furniture	20,000
Cash in hand	2,000		
	20,00,000		20,00,000

Additional Information:

The book value of the furniture sold was ₹ 50,000 on April 1, 2016 was sold for ₹ 20,000.

Tuition Fees Received will be _____

1. Shown as liabilities in Balance Sheet
2. Shown as Expense and debited to Income and Expenditure A/c
3. Shown as Income and credited to Income and Expenditure A/c
4. Shown as payments in Receipt and Payment Account

Options :

485584151445. 1
485584151446. 2
485584151447. 3
485584151448. 4

Question Number : 147 Question Id : 48558437862 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िये : प्रश्न 46 - 50 के उत्तर दीजिये

एक विद्यालय हेतु नीचे दिये गये तलपट तथा अन्य सूचनाओं से 31-03-2017 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु आय तथा व्यय खाता तथा तुलना पत्र उक्त तिथि को तैयार कीजिये

ऋणी राशि	राशि	धनी शेष	राशि
भवन	6,25,000	प्रवेश शुल्क	12,500
फर्नीचर	50,000	ट्यूशन शुल्क प्राप्त	5,00,000
पुस्तकालय पुस्तक	1,50,000	पुर्ति हेतु लेनदार	15,000
निवेश (12%) 1/4/16	5,00,000	विद्यालय हात हेतु किराया	10,000
खेतन	5,00,000	विविध प्राप्तियाँ	30,000
लेखन सामग्री	40,000	वसीयत (सामान्य)	3,50,000
सामान्य व्यय	18,000	सामान्य निधि	10,00,000
खेत व्यय	15,000	पुस्तकालय की पुस्तकों हेतु दान	62,500
बैंकस्थ रोकड़	1,00,000	पुराने फर्नीचर का विक्रय	20,000
हस्तस्थ रोकड़	2,000		
	20,00,000		20,00,000

अतिरिक्त सूचना :

1 अप्रैल 2016 को ₹50000 पुस्तक मूल्य के फर्नीचर का विक्रय ₹ 20000 में किया गया।

प्राप्त ट्यूशन शुल्क _____ होगा-

1. तुलना पत्र में दायित्व के रूप में प्रदर्शित
2. व्यय के रूप में तथा आय व व्यय खाते में ऋणी प्रदर्शित
3. आय के रूप में तथा आय व व्यय खाते में धनी प्रदर्शित
4. प्राप्ति एवं भुगतान खाते में भुगतान के रूप प्रदर्शित

Options :

485584151445. 1
485584151446. 2
485584151447. 3
485584151448. 4

Question Number : 148 Question Id : 48558437863 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

Read the following information provided by a school and attempt Question 46 – 50

The Trial Balance of a school as on 31.3.2017 is

Debit Balance	Amount (₹)	Credit Balance	Amount (₹)
Building	6,25,000	Admission fees	12,500
Furniture	50,000	Tuition fees received	5,00,000
Library books	1,50,000	Creditors for supplies	15,000
Investment @ 12% (1.4.16)	5,00,000	Rent for the school hall	10,000
Salaries	5,00,000	Miscellaneous receipts	30,000
Stationery	40,000	Legacies (general)	3,50,000
General expenses	18,000	General fund	10,00,000
Sports expenses	15,000	Donation for library books	62,500
Cash at bank	1,00,000	Sale of old furniture	20,000
Cash in hand	2,000		
	20,00,000		20,00,000

Additional Information:

The book value of the furniture sold was ₹ 50,000 on April 1, 2016 was sold for ₹ 20,000.

General Fund is also known as

1. Restricted Fund
2. Assets Fund
3. Capital Fund
4. Surplus or Deficit

Options :

485584151449. 1
485584151450. 2
485584151451. 3
485584151452. 4

Question Number : 148 Question Id : 48558437863 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िये : प्रश्न 46 - 50 के उत्तर दीजिये

एक विद्यालय हेतु नीचे दिये गये तलपट तथा अन्य सूचनाओं से 31-03-2017 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु आय तथा व्यय खाता तथा तुलना पत्र उक्त तिथि को तैयार कीजिये

ऋणी राशि	राशि	धनी शेष	राशि
भवन	6,25,000	प्रवेश शुल्क	12,500
फर्नीचर	50,000	ट्यूशन शुल्क प्राप्त	5,00,000
पुस्तकालय पुस्तक	1,50,000	पुर्ति हेतु लेनदार	15,000
निवेश (12%) 1/4/16	5,00,000	विद्यालय हात हेतु किराया	10,000
खेतन	5,00,000	विविध प्राप्तियाँ	30,000
लेखन सामग्री	40,000	वसीयत (सामान्य)	3,50,000
सामान्य व्यय	18,000	सामान्य निधि	10,00,000
खेत व्यय	15,000	पुस्तकालय की पुस्तकों हेतु दान	62,500
बैंकस्थ रोकड़	1,00,000	पुराने फर्नीचर का विक्रय	20,000
हस्तस्थ रोकड़	2,000		
	20,00,000		20,00,000

अतिरिक्त सूचना :

1 अप्रैल 2016 को ₹50000 पुस्तक मूल्य के फर्नीचर का विक्रय ₹ 20000 में किया गया।

सामान्य निधि इस रूप में भी जाना जाता है -

1. प्रतिबंधित निधि
2. परिसंपत्ति निधि
3. पूँजी निधि
4. अधिलाभ अथवा हानि

Options :

485584151449. 1
485584151450. 2
485584151451. 3
485584151452. 4

Question Number : 149 Question Id : 48558437864 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

Read the following information provided by a school and attempt Question 46 – 50

The Trial Balance of a school as on 31.3.2017 is

Debit Balance	Amount (₹)	Credit Balance	Amount (₹)
Building	6,25,000	Admission fees	12,500
Furniture	50,000	Tuition fees received	5,00,000
Library books	1,50,000	Creditors for supplies	15,000
Investment @ 12% (1.4.16)	5,00,000	Rent for the school hall	10,000
Salaries	5,00,000	Miscellaneous receipts	30,000
Stationery	40,000	Legacies (general)	3,50,000
General expenses	18,000	General fund	10,00,000
Sports expenses	15,000	Donation for library books	62,500
Cash at bank	1,00,000	Sale of old furniture	20,000
Cash in hand	2,000		
	20,00,000		20,00,000

Additional Information:

The book value of the furniture sold was ₹ 50,000 on April 1, 2016 was sold for ₹ 20,000.

Furniture of Book value ₹ 50,000 was sold for ₹ 20,000, Loss on Sale of Furniture of ₹ 30,000 will be

1. Credited to Receipt and Payment A/c
2. Debited to Receipt and Payment A/c
3. Credited to Income and Expenditure A/c
4. Debited to Income and Expenditure A/c

Options :

485584151453. 1
485584151454. 2
485584151455. 3
485584151456. 4

Question Number : 149 Question Id : 48558437864 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िये : प्रश्न 46 - 50 के उत्तर दीजिये

एक विद्यालय हेतु नीचे दिये गये तलपट तथा अन्य सूचनाओं से 31-03-2017 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु आय तथा व्यय खाता तथा तुलना पत्र उक्त तिथि को तैयार कीजिये

ऋणी राशि	राशि	धनी शेष	राशि
भवन	6,25,000	प्रवेश शुल्क	12,500
फर्नीचर	50,000	ट्यूशन शुल्क प्राप्त	5,00,000
पुस्तकालय पुस्तक	1,50,000	पुर्ति हेतु लेनदार	15,000
निवेश (12%) 1/4/16	5,00,000	विद्यालय हात हेतु किराया	10,000
खेतन	5,00,000	विविध प्राप्तियाँ	30,000
लेखन सामग्री	40,000	वसीयत (सामान्य)	3,50,000
सामान्य व्यय	18,000	सामान्य निधि	10,00,000
खेत व्यय	15,000	पुस्तकालय की पुस्तकों हेतु दान	62,500
बैंकस्थ रोकड़	1,00,000	पुराने फर्नीचर का विक्रय	20,000
हस्तस्थ रोकड़	2,000		
	20,00,000		20,00,000

अतिरिक्त सूचना :

1 अप्रैल 2016 को ₹50000 पुस्तक मूल्य के फर्नीचर का विक्रय ₹ 20000 में किया गया।

₹ 50,000 पुस्तक मूल्य के फर्नीचर का ₹ 20,000 में विक्रय किया, फर्नीचर पर ₹ 30,000 की हानि होगी -

1. प्राप्ति तथा भुगतान खाते में धनी
2. प्राप्ति तथा भुगतान खाते में ऋणी
3. आय तथा व्यय खाते में धनी
4. आय एवं व्यय खाते में ऋणी

Options :

485584151453. 1
485584151454. 2
485584151455. 3
485584151456. 4

Question Number : 150 Question Id : 48558437865 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

Read the following information provided by a school and attempt Question 46 – 50

The Trial Balance of a school as on 31.3.2017 is

Debit Balance	Amount (₹)	Credit Balance	Amount (₹)
Building	6,25,000	Admission fees	12,500
Furniture	50,000	Tuition fees received	5,00,000
Library books	1,50,000	Creditors for supplies	15,000
Investment @ 12% (1.4.16)	5,00,000	Rent for the school hall	10,000
Salaries	5,00,000	Miscellaneous receipts	30,000
Stationery	40,000	Legacies (general)	3,50,000
General expenses	18,000	General fund	10,00,000
Sports expenses	15,000	Donation for library books	62,500
Cash at bank	1,00,000	Sale of old furniture	20,000
Cash in hand	2,000		
	20,00,000		20,00,000

Additional Information:

The book value of the furniture sold was ₹ 50,000 on April 1, 2016 was sold for ₹ 20,000.

Excess of Sports Expenses over Sports Funds will be

1. Debited to Income and Expenditure A/c
2. Credited to Income and Expenditure A/c
3. Shown on Assets side
4. Shown as Negative balance on Liabilities side

Options :

485584151457. 1
485584151458. 2
485584151459. 3
485584151460. 4

Question Number : 150 Question Id : 48558437865 Question Type : MCQ Option Shuffling : No Is Question Mandatory : No Calculator : None
Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Instruction Time : 0

Correct Marks : 5 Wrong Marks : 1

Question Key Details :

Key	Value
Comprehension	Comp2

पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िये : प्रश्न 46 - 50 के उत्तर दीजिये

एक विद्यालय हेतु नीचे दिये गये तलपट तथा अन्य सूचनाओं से 31-03-2017 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु आय तथा व्यय खाता तथा तुलना पत्र उक्त तिथि को तैयार कीजिये

ऋणी राशि	राशि	धनी शेष	राशि
भवन	6,25,000	प्रवेश शुल्क	12,500
फर्नीचर	50,000	ट्यूशन शुल्क प्राप्त	5,00,000
पुस्तकालय पुस्तक	1,50,000	पुर्ति हेतु लेनदार	15,000
निवेश (12%) 1/4/16	5,00,000	विद्यालय हात हेतु किराया	10,000
खेतन	5,00,000	विविध प्राप्तियाँ	30,000
लेखन सामग्री	40,000	वसीयत (सामान्य)	3,50,000
सामान्य व्यय	18,000	सामान्य निधि	10,00,000
खेल व्यय	15,000	पुस्तकालय की पुस्तकों हेतु दान	62,500
बैंकस्थ रोकड़	1,00,000	पुराने फर्नीचर का विक्रय	20,000
हस्तस्थ रोकड़	2,000		
	20,00,000		20,00,000

अतिरिक्त सूचना :

1 अप्रैल 2016 को ₹50000 पुस्तक मूल्य के फर्नीचर का विक्रय ₹ 20000 में किया गया।

खेल निधि पर खेल व्यय का अधिक्य होगा -

1. आय तथा व्यय खाते में ऋणी
2. आय तथा व्यय खाते में धनी
3. परिसंपत्ति पक्ष में दर्शाया जाएगा
4. दायित्व पक्ष में ऋणात्मक शेष के रूप में दर्शाया जायेगा

Options :

485584151457. 1

485584151458. 2

485584151459. 3

485584151460. 4